



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2233]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2016/भाद्र 23, 1938

No. 2233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2016/BHADRA 23, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2016

का.आ. 2933(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3206 (अ), तारीख 30 नवम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के मेडक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) के 423.750 कि.मी. से 493.000 कि.मी. (सोलापुर—संगारेड्डी सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 5 फरवरी, 2016 को “दि हिन्दू” (अंग्रेजी) दैनिक और “नमस्ते तेलंगाना” (तेलगु) दैनिक दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) के 423.750 कि.मी. से 493.000 कि. मी. तक (सोलापुर-संगारेड्डी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	मंडल/तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	जमीन का प्रकार	जमीन की प्रकृति	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	भू-स्वामी/इच्छुक व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. मेडक	2. सदाषिवपेट	(1) नान्दीकान्दी	178	निजी	शुष्क	9308	(1) आवुला बिक्सापति पुत्र मल्लया (2) यरन्तगरि अनिता पत्नी आंजेनेयलु
कुल योग:							9308	

[फा. सं. भाराराप्रा/एलए/आरओ-बीएनजी/कर्नाटक/कलबुरगि]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2016

S.O. 2933(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3206(E) dated: 30th November, 2015, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 9 (New NH No. 65) on the stretch of land from Km. 423.750 to Km. 493.000 (Solapur-Sangareddy Section) in District Medak in the State of Telangana.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” English daily and “Namaste Telangana” Telugu daily both dated 5 February, 2016 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government there by declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 423.750 to Km. 493.000 (Solapur - Sangareddy Section) on the National Highway No.9 (New NH No. 65) in the State of Telangana.

Sl. No.	Name of The district	Name of the taluk / mandal	Name of the village	Survey No.	Type of land	Nature of land	Area in hactares/ Square metres	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Medak	1. Sadashivpeth	(1) Nandi Kandi	178	Private	Dry	9308	(1) Aavula Bikshapati s/o Mallaiah (2) Errantagari Anitha w/o Anjeneyulu
Grand Total							9308	

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/KALABURAGI]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.